




(uten bilder)

✎ Rukia Nantale
🔗 Benjamin Mitchley
📄 Nandani
🗣️ hindi / nynorsk
📖 nivå 5



Simbegwire

सिमबेगवईर

Barnebøker for Norge

barnebok.no



सिमबेगवईर / Simbegwire

Skrevet av: Rukia Nantale

Illustrert av: Benjamin Mitchley


Oversatt av: Nandani (hi), Espen Stranger-
Johannessen, Martine Rørstad Sand (nn)

Denne fortellingen kommer fra African Storybook (africanstorybook.org) og er videreformidlet av Barnebøker for Norge (barnebok.no), som tilbyr barnebøker på mange språk som snakkes i Norge.

Dette verket er lisensiert under en Creative Commons

[Navngivelse 3.0 Internasjonal Lisens.](https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.no)

<https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.no>



सिमबेगवाईर की माँ जब चल बसी, तब वह बहुत उदास थी।सिमबेगवाईर के पिता ने उसकी देखभाल करने की हर संभव कोशिश की। धीरे-धीरे उन्होंने सिमबेगवाईर की माँ के बिना खुश रहना फिर से सीख लिया। हर सुबह वे बैठते और उस दिन की बात करते। हर शाम साथ में मिलकर रात का खाना बनाते। बर्तन धोने के बाद, सिमबेगवाईर के पिता उसे गृहकार्य में मदद करते।


...

Då Simbegwire si mor døydde, vart ho veldig lei seg. Simbegwire sin far gjorde sitt beste for å ta hand om dotter si. Litt etter litt vart dei lukkelege igjen, utan Simbegwire si mor. Kvar morgon sat dei og snakka om dagen som låg føre dei. Kvar kveld laga dei middag saman. Etter at dei hadde teke oppvasken, hjelpte Simbegwire sin far henne med leksene.

Ein dag kom Simbegwire sin far heim seinare enn vanleg. "Kor er du, jenta mi?" ropte han. Simbegwire sprang til far sin. Ho stoppa opp då ho såg at han heldt ei dame i handa. "Eg vil at du skal møte ei spesiell kvinne, jenta mi. Dette er Anita", sa han og smilte.

...

एक दिन, सिम्बेग्वीरे के पिता रोज से देर पर आये। "कहाँ हो मेरे बच्चे?" उन्होंने बुलाया। सिम्बेग्वीरे अपने पिता के पास भागी। वह एक गड़बड़ जख उसने देखा कि उसके पिता ने एक महिला का हाथ पकड़ा है। "मैं चाहता हूँ कि तुम किसी विशेष से मिलो, मेरी बच्ची। यह वह अनिता है, वे मुस्कुराये।"






“नमस्ते सिमबेगवाईर, तुम्हारे पिता ने बहुत कुछ बताया है तुम्हारे बारे में,” अनीता ने कहा। पर वो मुस्कराई नहीं और बच्ची के हाथ को पकड़ा। सिमबेगवाईर के पिता खुश और उत्साहित थे। वे तीनों के साथ रहने की बात कर रहे थे और उनका जीवन कितना अच्छा हो सकता है। “मेरी बच्ची, मैं आशा करता हूँ कि तुम अनीता को माँ के रूप में स्वीकार करोगी,” उन्होंने ने कहा।

...

“Hei Simbegwire, far din har fortalt meg mykje om deg”, sa Anita. Men ho smilte ikkje og tok ikkje handa til jenta. Simbegwire sin far var glad og begeistra. Han snakka om at dei tre skulle bu saman, og kor godt dei skulle få det. “Jenta mi, eg håpar du vil akseptera Anita som mor di”, sa han.



अगले सप्ताह अनीता ने सिमबेगवाईर उसकी बुआ और फुफेरे भाई बहनों को अपने घर खाने पर बुलाया। क्या भोजन था! अनीता ने सभी खाना सिमबेगवाईर के पसंद का बनाया था, सभी तब तक खाते रहे जब तक उनका पेट नहीं भर गया। फिर छोटे खेल रहे थे जब तक बड़े बात कर रहे थे। सिमबेगवाईर को अच्छा लग रहा था साथ ही बहादुर महसूस कर रही थी। उसने फैसला लिया जल्द ही, बहुत जल्द, वह घर लौटेगी अपने पिता और सौतेली माँ के साथ रहने के लिए।


...

Neste veke bad Anita Simbegwire, saman med fetrane, kusunene og tanta, heim til seg på eit måltid. For ein fest! Anita laga alle yndlingsrettane til Simbegwire, og alle åt til dei vart gode og mette. Deretter leikte borna medan dei vaksne snakka. Simbegwire følte seg glad og modig. Ho bestemte at snart, veldig snart, skulle ho flytta heim og bu med far sin og stemor si.

सिमबेगविये का जीवन बदल गया। अब वह ज्यादा समय तक सुबह में पिता के साथ नहीं बैठ पाती। अनीता ने बहुत सारा धर का काम उसे दे रखा था जिसके कारण वह शाम को विद्यालय के कपड़े के समय धक जाती। रात के खाने के बाद धक कर वह बिस्तर पर र जाती। उसे एक ही चीज आराम देती वह था उसकी माँ का दिया हुआ रंगीन कम्बल। सिमबेगविये के पिता यह नहीं देख पा रहे थे कि उनकी बेटी खुश नहीं है।

...


Livet til Simbegwire forandra seg. Ho hadde ikkje lenger tid til å sitja saman med far sin om morgonen. Anita gav henne så mykje husarbeid at ho vart for sliten til å gjera lekseane om kvelden. Ho gjekk rett til sengs etter middag. Den einaste tøysta ho hadde var eit fargerikt teppe mor hennar hadde gjeve henne. Det verka ikkje som Simbegwire sin far merka at dotter hans var ulykkeleg.




उसके पिता हर दिन उसके पास जाते। आखिरकार, वे अनीता के साथ आये उसन सिमबेगविये का हाथ पकड़ा "मुझे माफ़ करना छोड़ो, मैं गलत थी," वह बोले। "क्या तुम दोबारा माँका दोगी?" सिमबेगविये ने अपने पिता के तरफ देखे बिना के साथ। पिता उसने धीरे-धीरे कम्म बंधाया और अनीता को पकड़े लिया।

...

Far hennar vitja henne kvar dag. Etter kvart kom han med Anita. Ho rakk handa til Simbegwire. "Eg er veldig lei meg, vesla, eg tok feil", gret ho. "Vil du la meg prøva igjen?" Simbegwire såg på far sin og den bekymra minn hans. Då gjekk ho bort til Anita og la langsam armene rundt henne.






कुछ महीने बाद,सिमबेगवाईर के पिता ने उनसे कहा कि वह कुछ दिनों के लिए घर से बाहर रहेंगे।"मुझे काम से बाहर जाना है," उन्होंने कहा।"पर मुझे पता है कि तुम दोनों एक दूसरे का ध्यान रखोगे।" सिमबेगवाईर का चेहरा उतर गया,लेकिन उसके पिता ने ध्यान नहीं दिया। अनीता ने कुछ नहीं कहा। वह भी खुश नहीं थी।

...

Etter nokre månader fortalde Simbegwire sin far dei at han skulle vera borte eit bel. "Eg må reisa på grunn av jobben min", sa han. Men eg veit at de kjem til ta vare på kvarandre." Simbegwire såg trist ut, men faren la ikkje merke til det. Anita sa ikkje noko. Ho var ikkje glad ho heller.



सिमबेगवाईर अपनी फुफेरी बहन के साथ खेल रही थी जब उसने दूर से पिता को देखा। वह डर गई कि कहीं वह गुस्सा हो, इस लिए छिपने के लिए घर में भाग गई। लेकिन उसके पिता उसके पास गए उन्होंने कहा,"सिमबेगवाईर, तुमने अपने लिए सही माँ को खोज लिया है। वह जो तुमको समझती है और प्यार करती है। मुझे तुम पर नाज़ है और मैं तुमसे प्यार करता हूँ।" वह तैयार हो गए कि जबतक सिमबेगवाईर चाहे वह अपनी बुआ के साथ रह सकती है।


...

Simbegwire leikte med fetrane og kusunene sine då ho såg far sin på lang avstand. Ho var redd han skulle verta sint, så ho sprang inn i huset og gøymde seg. Men far hennar gjekk til henne og sa: "Simbegwire, du har funne den beste mora i verda. Ei som er glad i deg og forstår deg. Eg er stolt av deg og glad i deg." Dei vart samde om at Simbegwire skulle verta buande hos tanta si så lenge ho ville.

यह सिम्बेगवाइरे के लिए बहुत ही बुरा हुआ। अगर वह अपना काम नहीं करती या शोकायत करती तो अनीता उसे मारती। और वह औरत रात के खाने में अधिकतर खाना खा जाती, सिम्बेगवाइरे के लिए जॉन छोड़ती। सिम्बेगवाइरे हर रात अकेले में रोती और माँ के कम्बल को गले से लगा लेती।

...


Ting vart berre vondare for Simbegwire. Viss ho ikkje gjorde ferdig husarbeidet, eller klaga, slo Anita henne. Og under middagen åt Anita det meste av maten, slik at Simbegwire berre fekk nokre få restar. Kvar natt gret Simbegwire til ho fall i søvn medan ho klemdde rundt teppet frå mor si.




जब सिम्बेगवाइरे के पिता घर आयें, उन्होंने उसका काम खाली पाया। "क्या हुआ अनीता?" उन्होंने ने भरे मन से पूछा। उस महिला ने बताया कि सिम्बेगवाइरे घर से भाग गई। "मैं चाहती थी कि वह मेरा सम्मान करे" उसने कहा। "शायद मैं ज्यादा सख्त ही गई" सिम्बेगवाइरे के पिता घर से निकल गए और झरने के तट पर चल दिए। उन्होंने ने अपनी बहुत से खोजना शुरू किया कि शायद उसने सिम्बेगवाइरे को देखा ही

...

Då Simbegwire sin far kom heim, såg han at rommet hennar var tomt. "Kva har skjedd, Anita?" spurde han bekymra. Kvinnasvara at Simbegwire hadde stukke av. "Eg ville at ho skulle respektera meg", sa ho. "Men kanskje eg var for streng." Simbegwire sin far forlet huset og gjekk i retning av beken. Han heldt fram til landsbyen til systemer si for å finna ut om ho hadde sett Simbegwire.






एक सुबह,सिमबेगवाईर देर से उठी। “आलसी लड़की!” अनीता चिलाई। उसने सिमबेगवाईर को बिस्तर से खिंचा।उस अमूल्य कम्बल को नाखून से नोचा, और दो भागों में फाड़ दिया।

...


Ein morgon brukte Simbegwire lang tid på å stå opp. “Din lathans!” ropte Anita. Ho drog Simbegwire ut av senga. Teppet ho var så glad i sat fast på ein spikar og rakna.



सिमबेगवाईर की बुआ बच्ची को घर ले गई। सिमबेगवाईर को गर्म खाना दिया और उसकी माँ के कम्बक के साथ बिस्तर में सुला दिया। उस रात,सिमबेगवाईर रोने लगी जब सोने गई। लेकिन ये आँसू खुशी के थे। वह जानती थी कि उसकी बुआ उसका देख भाल अच्छे से करेगी।

...


Tanta til Simbegwire tok med seg barnet til sitt eige hus. Ho gav Simbegwire varm mat, og la henne til å sova med teppet til mor si. Den natta gret Simbegwire idet ho sovna. Men det var fordi ho var så letta. Ho visste at tanta hennar ville ta seg av henne.



सिमबेगवाइरे बहुत उदास हो गई। उसने घर से भागने फैसला किया। उसने अपनी माँ के कमबल के टुकड़ों को ले लिया और कुछ खाने के सामान को और फिर घर से चली गई। वह उसी रातने पर चलने लगी जिससे उसके पिता गए थे।

...


Simbegwire var veldig opprørt. Ho bestemte seg for å rømme. Ho tok bitane frå teppet til mora, pakka litt mat og drog av garde. Ho følgde den same veggen som far hennar hadde teke.



उस महिला ने पंच के अंदर देखा। जब उसने लड़की और रंगीन कंबल के टुकड़ों को देखा, वह तिलाई, सिमबेगवाइरे, "सरे भाई की बेटी!" "दूसरी महिला ने धीमा रोक दिया और सिमबेगवाइरे की मदद की पंच से उतरने में। उसकी बुआ ने छोटी सी लड़की को गले से लगाया और कोशिश किया कि उसे अछा लगे।

...


Denne kvinna såg opp i treet. Då ho såg jenta og bitane av det fargerike teppet, ropte ho: "Simbegwire, dottera til bror min!" Dei andre kvinnene stoppa å vaska og hjelpte Simbegwire med å klatra ned frå treet. Tanta hennar gav den vesle jenta ein klem og prøvde å trøysta henne.



जब शाम हुई वह ऊँचे पेड़ पर चढ़ गई जो झरना के पास था और अपने लिए टहनियों के बीच में बिस्तर बना लिया। जब वह सोने लगी, उसने गाना गाया: “माँ, माँ, माँ, तुमने मुझे छोड़ दिया। तुम मुझे छोड़ कर चली गई और फिर कभी वापस नहीं आई। पिता कहीं से भी प्यार नहीं करते। माँ, कब तुम वापस आओगी? तुमने मुझे छोड़ दिया।”

...

Då kvelden kom, klatra ho opp i eit høgt tre ved ein bekk og reidde seg ei seng i greinene. Då ho gjekk og la seg, song ho: “Mamma, mamma, mamma, du forlét meg. Du forlét meg og kom aldri tilbake. Pappa er ikkje glad i meg lenger. Mamma, når kjem du tilbake? Du forlét meg.”



अगली सुबह,सिमबेगवाइरि ने फिर से गाना गाया। जब औरते झरने पर कपड़े धोने आई थी, उन्होंने वह गाना सुना जो बड़े से पेड़ से आ रहा था। उन्होंने सोचा यह केवल हवा है जो पत्तों से टकरा रही है और वह अपना काम करती रही। लेकिन उनमें से एक महिला ने बड़े ध्यान से गाना सुना।

...

Neste morgon song Simbegwire songen igjen. Då kvinnene kom for å vaska kleda sine i bekken, hørde dei den triste songen frå høgt oppe i treet. Dei trudde det berre var vinden som rasla med blada og heldt fram med arbeidet sitt. Men éin av kvinnene hørde veldig nøye på songen.